



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2006/पौष 16, 1927

No. 20]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2006/PAUSA 16, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2006

का.आ. 22(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 52 (अ) तारीख 13 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड का बाईपास सहित निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुसूचन, प्रबंधन और प्रेक्षण करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार ताराख 22 फरवरी, 2005 को “दिना थांथी” और “दि हिन्दू” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुये हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार करके अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली जिले के राधापुरम तालुक के पेरुगुडी गाँव के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्न्याकुमारी सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

जिला : तिरुनेलवेली

तालुका : राधापुरम

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूकाली का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	पेरुगुडी	1135/1ए	शुष्क	निजी	1100	1 एसाविकिमुथु कोनर, पुत्र मादासामी कोनर 2 बालासुब्रमणियन पुत्र गणपति
		1135/3ए	शुष्क	निजी	100	1 पलानी कोनर, पुत्र पेरुमल कोनर, 2 मादासामी कोनर पुत्र पेरुमल कोनर
		1135/4	शुष्क	निजी	850	पलानी कोनर, पुत्र पेरुमल कोनर,
		1135/5	शुष्क	निजी	650	शंकरण कोनर, पुत्र महालिंगम कोनर
		1135/6ए	शुष्क	निजी	350	पेरुमल कोनर, पुत्र महालिंगम कोनर
		1135/7ए	शुष्क	निजी	200	1 एसाविकिमुथु कोनर, पुत्र मादासामी कोनर, 2 महालिंगम कोनर, पुत्र पिटवादी कोनर, 3 पलानी कोनर पुत्र पेरुमल कोनर, 4 मादासामी कोनर, पुत्र पेरुमल कोनर, 5 शंकरण कोनर, पुत्र महालिंगा कोनर 6 पेरुमल कोनर, पुत्र महालिंगा कोनर 7 वेंकटरमा कोनर, पुत्र सुदालईमुथु कोनर, 8 एसस कोनर, पुत्र सुदालईमुथु कोनर 9 अरुमुगा कोनर, पुत्र सुदालईमुथु कोनर, 11 बालासुब्रमणियन, पुत्र गणपति, 12 अरुमुगाथम्मल
		1139/1ए	शुष्क	निजी	50	पंचायत यूनियन, वाल्लिओर

1	2	3	4	5	6	7
		1139/2ए	शुष्क	निजी	650	1 सुब्बिया कोनर, पुत्र एनामुथु कोनर 2 गणेशन, 3 कुमारवेल, 4 गणानराज, 5 कनमराज, 6 राजन
		1139/3ए	शुष्क	निजी	450	1 थेप्पई कोनर, पुत्र रामासामी कोनर, 2 मुथु कोनर, पुत्र रामासामी कोनर
		1139/5ए	शुष्क	निजी	600	एनदीकोनर, पुत्र पिटचईकन्नू कोनर,
		1139/6ए	शुष्क	निजी	700	सुब्बिया कोनर, पुत्र एनामुथु कोनर,
		1139/7	शुष्क	निजी	750	1 थोप्पिया कोनर, पुत्र रामासामी कोनर, 2 पिटचईमुथु कोनर, पुत्र रामासामी कोनर, 3 एनदी कोनर, पुत्र पिटचईकन्नू कोनर, 4 सुब्बिया कोनर, पुत्र एनामुथु कोनर,
		1139/8ए	शुष्क	निजी	350	एनादीकोनर, पुत्र पिटचईकन्नू कोनर,
		1366/1ए2ए	शुष्क	निजी	2300	दुरईराज, पुत्र नारायणा पेरुल्लल नादर
		1366/1ए3ए	शुष्क	निजी	2200	नारायणा पेरुल्लल नादर, पुत्र रामा नादर
		1367/1ए	शुष्क	निजी	1850	स्टैंडर्ड फायर वर्क लि. के लिए, शिवकाशी, निदेशक-सुवाशिष, पुत्र चेल्लादुरई नादर
		1367/2ए	शुष्क	निजी	1900	1 गनाना सिगामणी, पुत्र सेल्वामणी नादर, 2 ई.एन. पलानी सामी, पुत्र नानचप्पा गोंडर, 3 जयाजोथी एण्ड कं.लि.
		1371/2	शुष्क	निजी	500	1 एसथर पाकियावति, पत्नी परमानन्दम, 2 जॉन सेमुअल, पुत्र परमानन्दम, 3 एन.ई.पी.सी. माईकॉन कंपनी लिमिटेड, 4) प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव बैंक, कावलकिनारु

1	2	3	4	5	6	7
		1374/1ए	शुष्क	निजी	3400	1 अनन्थाकणी, पुत्र पेरिया नादर, 2 अबन इंडस्ट्रीयल, 3 अमरावतीअम्मल, 4 चंद्रशेखरन, पुत्र श्यामबुलिगा नादर, 5 सुंदर राजन, 6 दुरईराज, पुत्र थिरुमलई कोलथु नादर
		1374/2ए	शुष्क	निजी	2000	चंद्रशेखरन, पुत्र सेम्बुलिगा नादर
		1375	शुष्क	निजी	4150	रमण नादर, पुत्र नारायणन नादर
		1377/1बी	शुष्क	निजी	300	मद्रास सिमेंटस लि.कं., राजपलायम
		1377/2बी	शुष्क	निजी	200	मद्रास सिमेंटस लि.कं. राजपलायम
		1377/3बी	शुष्क	निजी	50	मद्रास सिमेंटस लि.कं., राजपलायम
		1380/2	शुष्क	निजी	750	मद्रास सिमेंटस लि.कं., राजपलायम
		1381/1बी	शुष्क	निजी	700	मद्रास सिमेंटस लि.कं., राजपलायम
		1381/2बी	शुष्क	निजी	700	सुब्रमणिपिल्लई, पुत्र अरुमुगमपिल्लई
		1386/1बी	शुष्क	निजी	2108	1 टी.आर. कन्नन, पुत्र रामासामी नायकर, 2 टी.आर. जयरमण पुत्र रामासामी नायकर, 3 वेल्लिया कोनर, पुत्र अनदी कोनर
		1386/2ए2	शुष्क	निजी	2100	टी.आर. कन्नन, पुत्र रामासामी नायकर
		1386/2बी2	शुष्क	निजी	1800	1 सुब्रमणिपिल्लई, पुत्र अरुमुगमपिल्लई, 2 नटराजन, 3 प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव बैंक, कवालकिनारु
		1140/1	पोरमवोके	राज्य सरकार	50	राज्य सरकार
		1388/5	पोरमवोके	राज्य सरकार	950	राज्य सरकार
		1934/1ए1	शुष्क	निजी	2100	रेथिनासामी, पुत्र राजमणी नादर
		1934/1बी1	शुष्क	निजी	150	पोलराज, पुत्र रामलिगा नादर
		1934/1सी1	शुष्क	निजी	750	थंगासामी नादर, पुत्र राम नारायण पेरुमल नादर

1	2	3	4	5	6	7
		1934/1डी1	शुष्क	निजी	2500	पोन्निया नादर, पुत्र पेरुमल नादर
		1934/1जी1	शुष्क	निजी	800	मद्रास सिमेंट लि. राजपलायम
		1934/2ए	शुष्क	निजी	1700	मद्रास सिमेंट लि. राजपलायम
		1935/1ए1	शुष्क	निजी	2350	1 सिलुवईमुथु नादर, पुत्र जोसेफ नादर, 2 शिशिल, पुत्र मुथिया, 3 डेविड, पुत्र मुथिया, 4 लुईस पियाटारियस पुत्र जॉर्ज मणी, 5 डेविड साथिया नेसन, पुत्र साथिया नादर 6 सामुवेल साथु, 7 डॉ. सी. राजेंद्रन
		1935/1बी	शुष्क	निजी	400	मादासामी, पुत्र एनामुथु असासी
		1935/1सी	शुष्क	निजी	400	थंगासामी, पुत्र काशिमणी नादर
		1935/2ए1	शुष्क	निजी	2550	1 मिखाईल नादर, पुत्र मिखाईल नादर, 2 शूशि ग्रेगोरी, पुत्र थिरावियम 3 सुंदरराजन पुत्र थिरुमलई कोलंथु नादर, 4 रोबर्ट, पुत्र चेल्लप्पन
		1935/2बी1	शुष्क	निजी	1150	डेविड दुई, पुत्र प्राणजोति नादर
		1935/2सी1	शुष्क	निजी	1050	1 मिखाईल नादर, पुत्र मिखाईल नादर, 2 शूशि ग्रेगोरी, पुत्र थिरावियम 3 सुंदरराजन पुत्र थिरुमलई कोलंथु नादर, 4 रोबर्ट, पुत्र चेल्लप्पन
		1941/1बी	शुष्क	निजी	8400	1 रामिया कोनर, पुत्र मायांदी कोनर, 2 अरुमुगम, पुत्र रामासामी कोनर, 3 संगीता टेक्सटाइल्स प्रा.लि. निदेशक ई.एन. शिवासामी पुत्र नचिप्पा गोंडर, 4 ई.एस. अशोक, पुत्र ई.एन. शिवासामी, 5 ट्रांस कार फाइनैस लि.

1	2	3	4	5	6	7
		1941/2ए	शुष्क	निजी	4100	1 अरुणा कुमारी, पुत्री मीनाक्षीअम्मल, 2 गणानामुथु नादर, पुत्र मेरिया एंथोनी नादर, 3 सेल्वराजन, पुत्र स्वामीनाथन
		1941/2सी	शुष्क	निजी	2850	1 शिवकुमार, पुत्र सुब्रमणिया पिल्लई, 2 गन्तनगुलामुथु, पुत्र सुब्रमणिया पिल्लई, 3 थंगा थयाम्मल, पत्नी अय्यापाजम
		1942/3	शुष्क	निजी	2600	1 साहल हमीद, पुत्र सैयद मोहम्मद, 2 पोन्नकुमार
		1943/1ए1	शुष्क	निजी	500	1 पोन्निया नादर, पुत्र सुदालईमुथु नादर, 2 चेल्लिया, पुत्र पोन्निया नादर
		1943/1बी1	शुष्क	निजी	700	1 कृष्णन, पुत्र ऐनामुथु, 2 थिरुवनन्था पेरुमल, पुत्र ऐनामुथु, 3 रामचंद्रन, पुत्र ऐनामुथु
		1943/2ए	शुष्क	निजी	1800	1 ई.एन. रामासामी, पुत्र नांजप्पा गोंडर, 2 ई.एस. अशोक, पुत्र ई.एन. शिवासामी 3 रामिया कोनर पुत्र मयानदी कोनर, 4 सी.ए.बी. कॉटन मिल्स लि.
		1944/2ए1	शुष्क	निजी	600	एक्सवियर, पुत्र पलईया नादर
		1944/2बी1	शुष्क	निजी	400	थिरावियम, पुत्र अप्पादुरई नादर
		1944/1ए2ए	शुष्क	निजी	500	1 जयराज, पुत्र कृष्णा पेरुमल नादर

1	2	3	4	5	6	7
		1945/2सी	शुष्क	निजी	400	1 सुलोचना, पत्नी थंगसासी, 2 निक्शन राजन, पुत्र थंगसासी 3 चंद्र शेखर, पुत्र थंगसासी 4 धानापाउल, पुत्र थंगसासी 5 अनिस, पुत्र थंगसासी, 6 बेनिस, पुत्र थंगसासी, 7 मननदास, पुत्र थंगसासी
		1945/2ए1बी	शुष्क	निजी	200	1 पी.के. अब्दुल सलाम, पुत्र हाजी हलिथ राबथेर, 2 पी.एस. हसनपिल्लई, पुत्र सईद मोहम्मद राबथेर
		1945/2ए2बी	शुष्क	निजी	50	सुकुमारन, पुत्र पोन्नूपिल्लई
		1945/2ए3बी	शुष्क	निजी	50	मारिया पोन्निया नादर, पुत्र कालिया पेरुमल नादर
		1946/2ए2	शुष्क	निजी	250	1 पी.के. अब्दुल सलाम, पुत्र हाजी हलिथ राबथेर, 2 पी.एस. हसनपिल्लई, पुत्र सईद मोहम्मद राबथेर
		1946/2बी1	शुष्क	निजी	300	1 सुलोचना, पत्नी थंगसासी, 2 निक्शन राजन, पुत्र थंगसासी 3 चंद्र शेखर, पुत्र थंगसासी 4 धानापाउल, पुत्र थंगसासी 5 अनिस, पुत्र थंगसासी, 6 बेनिस, पुत्र थंगसासी, 7 मननदास, पुत्र थंगसासी 8 पौडल थंगम, पत्नी थंगमेल नादर
		1947बी/1ए2	शुष्क	निजी	300	1 सनीअम्मल, पत्नी जॉर्ज 2 के.सी. थंगसाज, पुत्र चेल्मादुरई नादर, 3 प्रेमनगलार निलन, 4 तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन, 5 सीसाबाई, 6 क्रैकलिन
		1947बी/1डी2	शुष्क	निजी	100	एल.एम. डेविडसन, पुत्र लॉरेंस

2	3	4	5	6	7
	1947बी/1एफ2	शुष्क	निजी	100	1 गोबी, पुत्र पोन्नूपिल्लई, 2 पोनमलार निलन, 3 तमिलनाडु इंडस्ट्रिअल इंवेस्टमेंट कारपोरेशन, 4 डी.एम. डेविड राजन
	1948ए/1ए3बी	शुष्क	निजी	600	1 प्रकाश नादर, पुत्र थर्मानन्द नादर, 2 फातिमा दीपा रानी, पत्नी पुष्पराज, 3 सीनिवासन, पुत्र चोक्कालिगा पंडियन, 4 लाईसी राज, पत्नी गनान राज, 5 मास्को, 6 कवीन-सेलवी, 7 जैकब, 8 जेसिनथा बोस, 9 चंद्रा कुमार
	1948ए/3ए	शुष्क	निजी	100	गनानाप्रकाशम, पुत्र थिरावियम
	1951/1बी	शुष्क	निजी	1000	1 मैसर्स कुरियन अब्राहम प्रा.लि. नगरकोइल, 2 मैसर्स संगीता टेक्सटाईल्स लि., 3 ट्रांसवर्ल्ड सिपिंग सर्विसेज इंडिया प्रा.लि.
	1951/2बी	शुष्क	निजी	850	1 मैसर्स कुरियन अब्राहम प्रा.लि. नगरकोइल, 2 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रा.लि.
	1951/3ए1बी	शुष्क	निजी	400	1 कृष्णासामी, पुत्र रामासामी नादर, 2 मुरुगन, 3 सेल्वम, 4 कृष्णासामी
	1951/3बी2	शुष्क	निजी	800	1 मुरुगन, पुत्र नटराजन असारी, 2 सेल्वम, पुत्र नटराजन असारी
	1951/5बी	शुष्क	निजी	255	1 योन्नाम्मई नदार्थी, पुत्री पेरुमल नादर, 2 पोन्निया नादर, पुत्र अरुमुगा नादर, 3 अनदी कोनर, पुत्र रामासामी कोनर, 4 श्री जयाज्योति एण्ड कं. लि.
	1958/1बी	शुष्क	निजी	650	1 मैसर्स कुरियन अब्राहम प्रा.लि., नगरकोइल, 2 ट्रांसवर्ल्ड सिपिंग सर्विसेज इंडिया प्रा.लि., 3 अरुल सिगमणी

2	3	4	5	6	7
	1958/2बी	शुष्क	निजी	500	मैसर्स कुरियन अब्राहिम प्रा.लि.
	1958/3बी	शुष्क	निजी	550	मैसर्स कुरियन अब्राहिम प्रा.लि.
	1959/2बी	शुष्क	निजी	600	मादासामी नादर, पुत्र रामा नारायण पेरुमल नादर
	1947बी/5	पोरमबोके	राज्य सरकार	300	राज्य सरकार
	1951/6	पोरमबोके	राज्य सरकार	300	राज्य सरकार
	2566/5	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	राज्य सरकार
	2566/7	पोरमबोके	राज्य सरकार	350	राज्य सरकार
	2566/9	पोरमबोके	राज्य सरकार	500	राज्य सरकार

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/एमके/पेरू 3(डी) 1/2005/एलए-523]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2006

S.O. 22(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.52(E), dated the 13th January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highways No.7, including the bypass, on the stretch of land from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Daily Thanthi" and "The Hindu", both dated the 22nd February, 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report in respect of Perungudi village of Radhapuram Taluk, Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu, to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

3961/06-2

SCHEDULE

Land to be acquired, with or without structure, on National Highways No.7 falling within the stretch from Km 120.000 to 224.000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

District : Tirunelveli

Taluk : Radhapuram

Serial number	Name of village	Survey number	Nature of land	Type of land	Area of land (in square metres)	Name of the owners
1	2	3	4	5	6	7
1	Perungudi	1135/1A	Dry	Private	1100	1) Essakkimuthu Konar, S/o. Madasamy Konar, 2) Balasubramanian, S/o. Ganapathi
		1135/3A	Dry	Private	100	1) Palani Konar, S/o. Perumal Konar, 2) Madasamy Konar S/o. Perumal Konar
		1135/4	Dry	Private	850	Palani Konar, S/o. Perumal Konar,
		1135/5	Dry	Private	650	Sankaran Konar, S/o. Mahalingam Konar
		1135/6A	Dry	Private	350	Perumal Konar, S/o. Mahalingam Konar
		1135/7A	Dry	Private	200	1) Esakkimuthu Konar, S/o. Madasamy Konar, 2) Mahalingam Konar, S/o. Pitchandi Konar, 3) Palani Konar S/o. Perumal Konar, 4) Madasamy Konar, S/o. Perumal Konar, 5) Sankaran Konar, S/o. Mahalinga Konar 6) Perumal Konar, S/o. Mahalinga Konar 7) Venkatrama Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 8) Arasa Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 9) Arumuga Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 10) Vel Konar, S/o. Sudalaimuthu Konar, 11) Balasubramanian, S/o. Ganapathi, 12) Arumugathammal
		1139/1A	Dry	Private	50	Panchayat Union, Vallioor
		1139/2A	Dry	Private	650	1) Subbiah Konar, S/o. Enamuthu Konar, 2) Ganesan, 3) Kumaravel, 4) Gnanaraj, 5) Kanagaraj, 6) Rajan
		1139/3A	Dry	Private	450	1) Theppai Konar, S/o. Ramasamy Konar, 2) Muthu Konar, S/o. Ramasamy Konar

1	2	3	4	5	6	7
		1139/5A	Dry	Private	600	Andikonar, S/o.Pitchaikannu Konar,
		1139/6A	Dry	Private	700	Subbiah Konar, S/o.Enamuthu Konar,
		1139/7	Dry	Private	750	1)Thoppiah Konar, S/o.Ramasamy Konar, 2)Pitchaimuthu Konar, S/o.Ramasamy Konar, 3)Andi Konar, S/o.Pitchaikannu Konar, 4)Subbiah Konar, S/o.Enamuthu Konar,
		1139/8A	Dry	Private	350	Andikonar, S/o.Pitchaikannu Konar,
		1366/1A2A	Dry	Private	2300	Durairaj, S/o.Narayana Perumal Nadar
		1366/1A3A	Dry	Private	2200	Narayana Perumal Nadar, S/o.Rama Nadar
		1367/1A	Dry	Private	1850	For Standard Fire Works Ltd, Sivakasi, Director- Subasis, S/o.Chelladurai Nadar
		1367/2A	Dry	Private	1900	1)Gnana Sigamani, S/o.Selvamani Nadar, 2)E.N.Palani Samy, S/o.Nanchappa Gounder, 3)Jayajothi & Co. Ltd.
		1371/2	Dry	Private	500	1)Esther Packiavathi, W/o.Paramanantham, 2)John Samuvel, S/o.Paramanantham, 3)N.E.P.C.Micon Company Limited, 4)Primary Agriculture Co-operative Bank, Kavalkinaru
		1374/1A	Dry	Private	3400	1)Ananthakani, S/o.Periya Nadar, 2)Aban Industrial, 3)Amaravathiammal, 4)Chandra Sekaran, S/o.Suyambulinga Nadar, 5)Soundra Rajan, 6)Durairaj, S/o.Thirumalai Kolunthu Nadar
		1374/2A	Dry	Private	2000	Chandrasekaran, S/o.Sembulinga Nadar
		1375	Dry	Private	4150	Raman Nadar, S/o.Narayana Nadar
		1377/1B	Dry	Private	300	Madras Cements Limited Company, Rajapalayam
		1377/2B	Dry	Private	200	Madras Cements Limited Company, Rajapalayam
		1377/3B	Dry	Private	50	Madras Cements Limited Company, Rajapalayam
		1380/2	Dry	Private	750	Madras Cements Limited Company, Rajapalayam
		1381/1B	Dry	Private	700	Madras Cements Limited Company, Rajapalayam
		1381/2B	Dry	Private	700	Subramaniapillai, S/o.Arumugampillai

1	2	3	4	5	6	7
		1386/1B	Dry	Private	2108	1)T.R.Kannan, S/o.Ramasamy Nayakkar, 2)T.R.Jayaraman, S/o. Ramasamy Nayakkar, 3)Chelliah Konar, S/o.Andi Konar
		1386/2A2	Dry	Private	2100	T.R.Kannan, S/o.Ramasamy Nayakkar,
		1386/2B2	Dry	Private	1800	1)Subramaniapillai, S/o.Arumugampillai, 2)Natarajan, 3)Primary Agriculture Co-operative Bank, Kavalkinaru
		1140/1	Poramboke	State Government	50	State Government
		1388/5	Poramboke	State Government	950	State Government
		1934/1A1	Dry	Private	2100	Rethinasamy, S/o.Rajamani Nadar
		1934/1B1	Dry	Private	150	Paulraj, S/o.Ramalinga Nadar
		1934/1C1	Dry	Private	750	Thangasamy Nadar, S/o.Rama Narayana Perumal Nadar
		1934/1D1	Dry	Private	2500	Ponniah Nadar, S/o.Perumal Nadar
		1934/1G1	Dry	Private	800	Madras Cements Ltd., Rajapalayam
		1934/2A	Dry	Private	1700	Madras Cements Ltd., Rajapalayam
		1935/1A1	Dry	Private	2350	1)Siluvaimuthu Nadar, S/o.Joseph Nadar, 2)Sisil, S/o.Muthiah, 3)David, S/o.Muthiah, 4)Louis Piyataries, S/o.George Mani, 5)David Sathiya Nesan, S/o.Sathiya Nadar, 6)Samuvel Sathu, 7)Dr.C.Rajendran
		1935/1B	Dry	Private	400	Madasamy, S/o. Enamuthu Asari
		1935/1C	Dry	Private	400	Thangasamy, S/o. Kasimani Nadar
		1935/2A1	Dry	Private	2550	1) Michael Nadar, S/o. Michael Nadar, 2) Soosai Gragory, S/o. Thiraviam, 3) Soundrarajan, S/o. Thirumalai Kolunthu Nadar, 4) Robert, S/o. Chellappan
		1935/2B1	Dry	Private	1150	David Durai, S/o. Paranjothi Nadar

1	2	3	4	5	6	7
		1935/2C1	Dry	Private	1050	1) Michael Nadar, S/o. Michael Nadar, 2) Soosai Gragory, S/o. Thiraviam, 3) Soundrarajan, S/o. Thirumalai Kolunthu Nadar, 4) Robert, S/o. Chellappan
		1941/1B	Dry	Private	8400	1) Ramiah Konar, S/o. Mayandi Konar, 2) Arumugam, S/o. Ramasamy Konar, 3) Sangeetha Textiles Pvt. Ltd. Director E.N.Sivasamy, S/o. Nachiappa Gounder, 4) E.S.Ashok, S/o. E.N.Sivasamy, 5) Trans Car Finance Ltd.
		1941/2A	Dry	Private	4100	1) Aruna Kumari, M/o. Meenakshiammal, 2) Gnanamuthu Nadar, S/o. Mariya Antony Nadar, 3) Selvarajan, S/o. Swaminathan
		1941/2C	Dry	Private	2850	1) Sivakumar, S/o. Subarmania Pillai, 2) Gnanagulamuthu, S/o. Subramania Pillai, 3) Thanga Thayammal, W/o. Ayyapazham
		1942/3	Dry	Private	2600	1) Sahul Hameed, S/o. Seyed Mohamed, 2) Ponnukumar
		1943/1A1	Dry	Private	500	1) Ponniah Nadar, S/o. Sudalaimuthu Nadar, 2) Chelliah, S/o. Ponniah Nadar
		1943/1B1	Dry	Private	700	1) Krishnan, S/o. Enamuthu, 2) Thiruvanantha Perumal, S/o. Enamuthu, 3) Ramachandran, S/o. Enamuthu
		1943/2A	Dry	Private	1800	1) E.N.Ramasamy, S/o. Nanjappa Gounder, 2) E.S.Ashok, S/o. E.N.Sivasamy, 3) Ramiah Konar, S/o. Mayandi Konar, 4) C.A.V. Cotton Mills Ltd.
		1944/2A1	Dry	Private	600	Xavier, S/o. Palaiah Nadar
		1944/2B1	Dry	Private	400	Thiraviam, S/o. Appadurai Nadar
		1944/1A2A	Dry	Private	500	1) Jeyaraj, S/o. Krishna Perumal Nadar

1	2	3	4	5	6	7
		1945/2C	Dry	Private	400	1) Sulochana, W/o. Thangasamy, 2) Nixon Rajan, S/o. Thangasamy, 3) Chandra Sekar, S/o. Thangasamy, 4) Dhanapaul, S/o. Thangasamy, 5) Anis, S/o. Thangasamy, 6) Venis, S/o. Thangasamy, 7) Gnanadhas, S/o. Thangasamy
		1945/2A1B	Dry	Private	200	1) P.K.Abdul Salam, S/o. Haji Halith Ravuthar, 2) P.S.Hasanpillai, S/o. Seyed Mohammed Rowther
		1945/2A2B	Dry	Private	50	Sukumaran, S/o. Ponnupillai
		1945/2A3B	Dry	Private	50	Maria Ponniah Nadar, S/o. Valiya Perumal Nadar
		1946/2A2	Dry	Private	250	1) P.K.Abdul Salam, S/o. Haji Halith Rowther, 2) P.S.Hasanpillai, S/o. Seyed Mohammed Rowther
		1946/2B1	Dry	Private	300	1) Sulochana, W/o. Thangasamy, 2) Nixon Rajan, S/o. Thangasamy, 3) Chandra Sekar, S/o. Thangasamy, 4) Dhanapaul, S/o. Thangasamy, 5) Anis, S/o. Thangasamy, 6) Venis, S/o. Thangasamy, 7) Gnanadhas, S/o. Thangasamy, 8) Paul Thangam, W/o. Thangavel Nadar
		1947B/1A2	Dry	Private	300	1) Raniammal, W/o. George, 2) K.C.Thangaraj, S/o. Chelladurai Nadar, 3) Ponnalar Nilon, 4) Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, 5) Geethabai, 6) Franklin
		1947B/1D2	Dry	Private	100	L.M.Davidson, S/o. Lawrence
		1947B/1F2	Dry	Private	100	1) Gobi, S/o. Ponnupillai, 2) Ponnalar Nilon, 3) Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, 4) D.M.David Rajan

1	2	3	4	5	6	7
		1948A/1A3B	Dry	Private	600	1) Prakasa Nadar, S/o. Tharmanatha Nadar, 2) Fathima Deepa Rani, W/o. Pushparaj, 3) Seenivasan, S/o. Chokkalinga Pandian, 4) Lincy Raj, W/o. Gnana Raj, 5) Masco, 6) Queen Selvi, 7) Jacob, 8) Jecintha Bose, 9) Chandra Kumar
		1948A/3A	Dry	Private	100	Gnanaprakasam, S/o. Thiraviam
		1951/1B	Dry	Private	1000	1) M/s. Kuriyan Abraham Pvt.Lt., Nagercoil, 2) M/s. Sangeetha Textiles Ltd., 3) Transworld Shipping Service India Pvt. Ltd.
		1951/2B	Dry	Private	850	1) M/s. Kuriyan Abraham Pvt.Lt., Nagercoil, 2) Bharath Petroleum Corporation Ltd.
		1951/3A1B	Dry	Private	400	1) Krishnasamy, S/o. Ramasamy Nadar, 2) Murugan, 3) Selvam, 4) Krishnasamy
		1951/3B2	Dry	Private	800	1) Murugan, S/o. Natarajan Asari, 2) Selvam, S/o. Natarajan Asari
		1951/5B	Dry	Private	255	1) Ponnammam Nadathi, D/o. Perumal Nadar, 2) Ponniah Nadar, S/o. Arumuga Nadar, 3) Andi Konar, S/o. Ramasamy Konar, 4) Sri Jeyajothi & Co.Ltd.
		1958/1B	Dry	Private	650	1) M/s. Kuriyan Abraham Pvt.Ltd., Nagercoil, 2) Transworld Shipping Service India Pvt. Ltd., 3) Arul Sigamani
		1958/2B	Dry	Private	500	M/s. Kuriyan Abraham Pvt.Ltd.
		1958/3B	Dry	Private	550	M/s. Kuriyan Abraham Pvt.Ltd.
		1959/2B	Dry	Private	600	Madasamy Nadar, S/o. Rama Narayana Perumal Nadar
		1947B/5	Poramboke	State Government	300	State Government

1	2	3	4	5	6	7
		1951/6	Poramboke	State Government	300	State Government
		2566/5	Poramboke	State Government	150	State Government
		2566/7	Poramboke	State Government	350	State Government
		2566/9	Poramboke	State Government	500	State Government

[F. No. NHAI/Tech/LA/MK/Peru 3(D) 1/2005/LA-523]

PRABHAKAR, Dy. Secy.